



DAYANAND COLLEGE, HISAR

Governed by DAV College Managing Committee, New Delhi
Affiliated to Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar

Department of Zoology Session 2020-21

List of Activities

Activity 1	Establishment of Zoology Association	December 2020
Activity 2	Webinar on Biodiversity for Knowledge Upgradation	19th January 2021
Activity 3	Photography Competition on Avian (Birds) Fauna of Hisar	6th March 2021

Dr. Meenakshi Jindal

Incharge
Zoology Association

Dr. Vivek Srivastava

Professor Incharge
Department of Zoology



DAYANAND COLLEGE, HISAR
Governed by DAV College Managing Committee, New Delhi
Affiliated to Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar

Department of Zoology Session 2020-21

Establishment of Subject Society - Zoology Association

Subject society - Zoology Association is the **new Association** which comes into existence in **December 2020** by Dr. Vivek Srivastava, Head of Department. The main motive of Association is the Holistic development of the students. After coming into existence, the association thought new ideas to encourage the science students. This is because the new ideas can change the universe.




About the Emblem of Zoology Association

The Emblem shows

National Animal	Tiger
National Bird	Peacock
State Animal	Blackbuck

These animals signify the diversity of animals in India



**This Emblem of Zoology Association was made by the Joint efforts of:
Dr. Vivek Srivastava, Dr. Meenakshi Jindal
Mr. Sachin**




DAYANAND COLLEGE, HISAR

Governed by DAV College Managing Committee, New Delhi
Affiliated to Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar

Webinar on Biodiversity for Knowledge Upgradation

**Organized by:
Department of Zoology**



Date of Webinar

19th January 2021

Organizer

**Dr. Vivek Srivastava
Professor Incharge
Department of Zoology
Dayanand College, Hisar**

One Day **National Webinar Organized by Department of Zoology**

On

**Wildlife and Environment Conservation in India: How to Study
Direct & Indirect Field Observations?**

(Brochure Copy attached)

On 19th January 2021 at 11:30 am

Eminent Speaker



Dr. Deepak Rai

Assistant Professor, Department of Zoology

President- Zoology Association

Deputy Director- Public Relations

Kurukshetra University, Kurukshetra-132119, Haryana



DAYANAND COLLEGE, HISAR

Accredited with 'A' Grade by NAAC

Governed by DAV College Managing Committee, New Delhi

Affiliated to Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar

Department of Zoology

Invites you to join a National Webinar on

Wildlife and Environment Conservation in India: How to study direct & indirect field observations?

On 19th Jan. 2021 at 11:30 am

Eminent Speaker:



Dr. Deepak Rai

Assistant Professor, Department of Zoology

President- Zoology Association, Deputy Director-Public Relations,

Kurukshetra University, Kurukshetra-132119, Haryana

About the Webinar

“Our solutions are in nature” – This emphasizes the importance of working together at all levels to build a future of life in harmony with nature. Biological diversity resources are the pillars upon which we build civilization. It brings together different groups in society to conserve nature issues *i.e.* sustainability. The loss of biodiversity threatens all including our health. It could extend zoonosis. Since, several species are often involved in the spread of infection, the loss of biodiversity and extinction of many species increase the chances of pathogens reaching human being. If we keep it intact, then it proves to be an excellent tool in pandemics like Corona virus.

Convener

Dr. Vivek Srivastava

Head, Department of Botany

Prof. Incharge - Department of Zoology

Patron

Dr. Vikramjit Singh

Principal

Webinar Details (Copy of Brochure attached)

Patron **Dr. Vikramjit Singh, Principal,**
Dayanand College

Convener	Dr. Vivek Srivastava, Professor In-charge, Department of Zoology
Co- Conveners	Dr. Aditya Kumar Assistant Professor Department of Botany
	Dr. Chhavi Mangl Assistant Professor Department of Botany
Organising Secretaries	Dr. Hemant Sharma Assistant Professor Department of Botany
	Dr. Meenakshi Jindal Assistant Professor Department of Zoology
	Mr. Sachin Assistant Professor Department of Zoology
Webinar Committee Members	Ms. Anju Bala Assistant Professor Department of Zoology
	Dr. Urmila Assistant Professor Department of Zoology
	Mrs. Poonam Devi Assistant Professor Department of Zoology
	Ms. Himani Assistant Professor Department of Zoology
	Sh. Sushil Rajpa
	Ms. Alka Golyan Assistant Professor Deptt. of Computer Sc.
	Ms. Monika Assistant Professor Deptt. of Computer Sc
Webinar mail ID	zoologywebinar@gmail.com
Registration Form Link	https://forms.gle/5JeC9UB5LoLQZ6HM9
Total Number of Participants Registered	283

Webinar Organizing Committee

Organising Secretaries

Dr. Hemant Sharma (Dept. of Botany)
Dr. Meenakshi Jindal (Dept. of Zoology)
Sh. Sachin Mehra (Dept. of Zoology)

Webinar Co-Conveners

Dr. Aditya Kumar (Dept. of Botany)
Dr. Chhavi Mangla (Dept. of Botany)

Webinar Committee Members

Ms. Anju (Dept. of Zoology)
Dr. Urmila (Dept. of Zoology)
Mrs. Poonam Devi (Dept. of Zoology)
Ms. Himani (Dept. of Zoology)

Sh. Sushil Rajpal
Ms. Alka Golyan (Dept. of Computer Sc.)
Ms. Monika (Dept. of Computer Sc.)

Registration & Certificate of Participation

No Registration Fee for Participation: Faculty, Research Scholars and Students of all subjects are invited.

Registration Form link: <https://forms.gle/5JeC9UB5L0LQZ6HM9>

Registration will remain open till 17th Jan., 2021 by 5:00 pm.

Joining link will be sent to the participants on their registered email id's on 18th Jan. 2021.

All participants will be given e-certificates after successfully completing the webinar and filling up the feedback form just after the webinar.


For any query please email at: zoologywebinardnc@gmail.com

Contact Numbers

Dr. Vivek Srivastava- 9896153203
Dr. Aditya Kumar- 9996419238
Dr. Hemant Sharma-9466787718
Dr. Chhavi Mangla- 8199060238
Dr. Meenakshi Jindal- 9416139139

Links to Join Webinar

Link for Faculty Members (Zoom Link)



Forwarded

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, us02web.zoom.us

Zoom Link for the national webinar.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/82116503590?pwd=dDNmQ3poeE96NTUrZVJ0dkxZa2RFUT09>

Meeting ID: 821 1650 3590

Passcode: 299939

8:57 PM

Link for Students & research Scholars (YouTube Link)



National Webinar on Wildlife and Environment Conservation in India: How to study direct & indirect f

youtube.com

<https://www.youtube.com/watch?v=7pbYjO8QaKQ&feature=youtu.be>

7:06 AM

Feedback Link (Common for all Participants)

Feedback Link-

Feedback form link: <https://forms.gle/gNTLcTJowaxqgE1G7>

Total Feedbacks Received - 101


Press Release (Newspaper Cuttings)

जैवविविधता को बनाए रखना जरूरी : डॉ. राय

हिसार | डीएन कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग ने वाइल्ड लाइफ एंड एन्वायरमेंट कंजर्वेशन इन इंडिया: हउ टू स्टडी डायरेक्ट एंड इन्डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन विषय पर राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी की। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. दीपक राय, सहायक प्राध्यापक, प्राणी विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉ. दीपक ने बताया कि किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैवविविधता के संरक्षण आवश्यक है।

डॉ. दीपक ने बताया कि मानव समाज के कल्याण और स्थिरता को बनाए रखने के लिए जैवविविधता को बनाए रखना जरूरी है। डॉ. दीपक ने छात्रों व शिक्षकों को जंगल व जंगली जानवरों की विविधता की खोज किस आधार पर की जाती है, इसकी जानकारी दी। प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने डॉ. दीपक राय का स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक व वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 285 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया।

The Department of Zoology of Dayanand College Hisar organised one day National Webinar on the topic Wildlife and Environment Conservation in India: How to Study Direct and Indirect Field Observations? Dr Deepak Rai, Assistant Professor at Department of Zoology Kurukshetra University Kurukshetra was keynote speaker. My heartiest **congratulations** to Department of Zoology. Thank You Very Much Dr. Deepak ji for informative and beautiful presentation.



दयानंद कालेज ने जैव विविधता संरक्षण पर कराई राष्ट्रीय संगोष्ठी

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 19 जनवरी : दयानंद महाविद्यालय, हिसार के प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा "Wild Life and Environment Conservation in India : How to Study Direct And Indirect Filed Observation?" विषय पर राष्ट्रीय वैब संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. दीपक राय, सहायक प्राध्यापक, प्राणी विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉ. दीपक ने बताया कि किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैव विविधता अथवा biodiversity के संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मानव समाज के कल्याण और स्थिरता को बनाए



रखने के लिए जैवविविधता को बनाए रखना जरूरी है। डॉ. दीपक ने छात्रों व शिक्षकों को जंगल व जंगली जानवरों की विविधता की खोज किस आधार पर की जाती है, इसकी जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने डॉ. दीपक राय का स्वागत करते हुए कहा कि डॉ. दीपक राय दयानंद महाविद्यालय, हिसार में सन् 2008-2012 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वे हमारे परिवार के एक सदस्य

के रूप में हैं। कार्यक्रम के संयोजक व वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 285 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया जिनमें मुख्य रूप से अध्यापक व शोध विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की आयोजन सह-सचिव डॉ. मीनाक्षी जिंदल ने प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का काल का संचालन किया। वैबीनार के उपसंयोजक डॉ. आदित्य कुमार, डॉ. छवि मंगला के अतिरिक्त सचिव मेहरा तथा कम्प्यूटर साईंस विभाग की अलका, मोनिका और सुशील राजपाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ. हेमन्त शर्मा ने मुख्य वक्ता डॉ. दीपक राय, प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह और अन्य सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद प्रस्तुत किया।



DAYANAND COLLEGE, HISAR

Governed by DAV College Managing Committee, New Delhi
Affiliated to Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar

Department of Zoology

Photography Competition on Avian (Birds) Fauna of Hisar



Venue

**Zoology Laboratory No. 1
Department of Zoology
Dayanand College, Hisar**

Date of Exhibition

6th March 2021

Organizer

**Zoology Association
Department of Zoology
Dayanand College, Hisar**

Detailed Program of Photography Competition

Topic of Exhibition Avian (Birds) Fauna of Hisar

Theme Birds around you

Venue Zoology Laboratory No. 1
Department of Zoology
Dayanand College, Hisar

Date of Exhibition 6th March 2021 (Copy of Notice Attached)
Time of Exhibition 11:00 am


Organizer Zoology Association
Department of Zoology
Dayanand College, Hisar

DAYANAND COLLEGE HISAR
Department of Zoology

Notice

Date: 03/3/2021

Zoology Association, Department of Zoology is going to organise a photography competition on the topic "AVIAN (Birds) FAUNA" of Hisar on 6/03/2021 at 11:00 a.m. in Zoology Department. In this event, the Geotagged photographs of the birds will be displayed by the students. All the teachers are cordially invited to grace the occasion.


Dr. Vivek Srivastava
Prof. In-charge


Principal

Purpose of Exhibition

Photography is the passion of today's new generation. They go on clicking the pictures of each and everything in this universe which comes in their path. Keeping this in mind, Association thought to link this interest of clicking photographs of new generation with the environment. Thus, the Association decided to organize a photography competition on Birds Diversity for zoology students at college level. This is a great, amazing and new idea.



The main reason for organizing this competition is that due to Covid pandemic we all have become so lazy. Moreover, students get bored with online mode of teaching. They need something new, which fills them with energy. Thus, there is a great need to create the urge of doing something new in students.

We know the education dynamics is been completely changed due to pandemic, this is our first event which was organized by Zoology Association in the department. Although all the social distancing norms and guidelines issued by college and government were fully followed during photography and during the exhibition.

Birds teaches great Life lesson
All you have to do is listen to their song

It is the encouragement of our Principal Dr. Vikramjit Singh that he gave permission to organize such an amazing competition. Some rules were framed for the participants so that originality of the photographs can be maintained. (Copy of rules attached)

DAYANAND COLLEGE, HISAR
DEPARTMENT OF ZOOLOGY
NOTICE

Date- 23-01-2021


We are pleased to announce that the Subject Society **Zoology Association** is organizing a photography competition for Zoology students on "**Avian Fauna**"


Theme- Birds Around you

Rules for the Photography Competition :

- 1. Should be an original photograph taken by the contestant.**
 - Each submitted photograph must be in its entirety a single work of original material taken by the contestant / student.
 - Photograph should be geotagged with time, date & location.
 - A coloured printout of photograph (size10"×8") with name, class, Roll no. should be submitted on a geography sheet.
- 2. Deadline :** All photographs should be submitted by **15th February, 2021**
To Ms. Anju and Ms. Himani Singla (Asst.Professors in Zoology department)
- 3. The best entries will be selected for 1st, 2nd, & 3rd prize and displayed**
- 4. Follow all the guidelines issued by government and college authorities in regard to COVID-19: Wear mask properly, maintain social distancing & proper hand sanitization during photography**

Please stay safe &Enjoy the birds in your Vicinity.


Dr. Vivek Srivastava
Head, Dept. of Zoology


Principal

It was decided that the photographs of birds around Hisar district were considered valid only. For this purpose only geotagged photographs were decided to be considered as valid for competition. Head of the Department Dr. Vivek Srivastava gave new ideas time to time related with the competition which made the competition successful.

The association president Ms. Zinat, student of B.Sc. 3rd year, alongwith other members of Association took keen interest in organizing the function. All these members of the association under the guidance of staff members viz. Dr. Meenakshi Jindal, Mr. Sachin, Ms Poonam Devi, Ms. Anju Bala, Dr. Urmila, Ms. Himani and Ms. Nikita, organised the competition in very beautiful manner.

Prizes

1st Prize	₹ 500
2 nd Prize	₹ 300
3 rd Prize	₹ 200
Two Consolation Prizes	₹ 200 each

The cash prizes increased the enthusiasm of the students and they participated in competition with full energy.

Details of Entries (Copy Attached)

Total Number of Participants - 39

Total Number of Entries - 55


(Multiple entries by individual participant was allowed)

Sr. No.	Name of student	Class	Roll No.	Bird's Common Name	Scientific Name
1	Mamta Devi	B.Sc. 1 st A2	203042350165	Red wattled lapwing	<i>Vanellus indicus</i>
2	Monika	B.Sc. 1 st A2	203042350090	Rock pigeon	<i>Columba livia</i>
3	Pooja Devi	B.Sc. 1 st A2	203042350088	Rock pigeon	<i>Columba livia</i>
4	Sangeeta	B.Sc. 1 st A2	203042350091	Indian fantail	<i>Columba livia</i>
				Domestic pigeon	
5	Akash	B.Sc. 1 st A2	203042350131	Domestic pigeon	<i>Columba livia domestica</i>
6	Naseeb	B.Sc. 1 st A2	203042350125	Cock	<i>Gallus gallus domestica</i>
7	Swati	B.Sc. 1 st A2	203042350095	Domestic pigeon	<i>Columba livia</i>
8	Payal	B.Sc. 1 st A2	203042350094	Domestic pigeon	<i>Columba livia domestica</i>
9	Amit Kumar	B.Sc. 1 st A2	203042350184	Cattle egret	<i>Ardea</i>
10	Komal	B.Sc. 1 st A2	203042350083	Dove &	<i>Zenaida macroura</i>
				Egret	<i>Ardea</i>
11	Gunjan	B.Sc. 1 st A1	203042350008	Rock pigeon	<i>Rock pigeon</i>
12	Anshuman	B.Sc. 1 st A2	203042350136	Rock pigeon	<i>Rock pigeon</i>
	Pushpa	B.Sc. 1 st B	203042360062	Myna	<i>Acridotheres</i>
13	Jyoti	B.Sc. 1 st B	203042350038	Parrot	<i>Psittacula</i>
14	Rahul	B.Sc. 1 st A2	203042360044	Red wattled lapwing	<i>Vanellus indicus</i>
15	Nishu	B.Sc. 1 st A1	2.03042E+11	House Sparrow	<i>Passer</i>
16	Nishu			White wagtail	<i>Motacilla alba</i>
				White Throated Kingfisher	<i>Halcyon</i>
17	Suman	B.Sc. 1 st A1	203042350039	House Sparrow	<i>Passer</i>
18	Yogesh	B.Sc. 2 nd A1	3148010022	Dove	<i>Z.macroura</i>
19	Nidhi	B.Sc. 2 nd A1	3148020012	Red Bulbul	<i>Pyncnoptus cafer</i>
20	Raunak Soni	B.Sc. 2 nd A1	3148020015	Rock pigeon	<i>Columba livia</i>

	Name of Student	Class	Roll No.	Bird's Common name	Scientific Name
21	Renu	B.Sc. 2nd A1	3148020022	Crow	<i>Corvus splendens</i>
22	Monika	B.Sc. 2nd A2	3148020115	Drongo	<i>Dicrurus</i>
23	Monika	B.Sc. 2nd A2	3148020115	Cattle egret	<i>Ardea</i>
24	Aryan	B.Sc. 2nd A1	3148010017	Green bee eater	<i>Merops orientalis</i>
25	Manisha Pal	B.Sc. 2nd Biotech	3244220007	Rock pigeon	<i>Columba livia</i>
26	Manju	B.Sc. 2nd A1	3148020016	Crow and Common Myna	<i>Corvus & Acridotherus</i>
27	Ankita	B.Sc. 2nd A1	3148020011	House Sparrow	<i>Passer</i>
28	Anjali	B.Sc. 2nd A1	3148020041	Rock pigeon	<i>Columba livia</i>
29	Anjila	B.Sc. 2nd A2	3148020123	Red wattled lapwing	<i>Vanellus indicus</i>
				Mynah	<i>Gracupica</i>
				Owl	<i>Strix aluco</i>
30	Nikhil	B.Sc. 2nd A1	3148010004	Rock pigeon	<i>Columba livia</i>
31	Aanchal	B.Sc. 2nd A1	3148020034	Domestic Geese	<i>Anser</i>
				Dove	<i>Streptopelia</i>
32	Ranjan	B.Sc. 2nd A1	3148010018	Pigeon	<i>Columba livia</i>
33	Manjeet	B.Sc. 2nd A1	31448010019	Grey Geese & Weiro bird	<i>Anser & Nymphicus</i>
34	Pooja	B.Sc. 3rd Biotech	2362920018	Collared Dove	<i>Streptopelia</i>
				Woodpecker	<i>Picinae</i>
				Spotted dove	<i>Spilopelia</i>
35	Karishma	B.Sc.3rd Biotech	2362920009	Red wattled lapwing & Babbler	<i>Vanellus indicus</i> <i>Turdoides</i>
36	Anju	B.Sc. 3rd Biotech	2362920039	Domestic pigeon	<i>Columba livia</i>
				Peacock	<i>Pavo</i>
37	Jyoti	B.Sc. 3rd A2	2266720101	Egret	<i>Bubulcus</i>
				Pigeon	<i>Columba livia</i>
38	Pragati	B.Sc. 3rd A1	2266720011	Kingfisher	<i>Alcedo</i>
39	Zinat	B.Sc. 3rd A2	183042350057	Peacock	<i>Pavo</i>

Decoration

Awesome Rangoli made by the students amazed all the faculty of the college.




Decoration made by students was also awesome and was praised by all the faculty members of the college

Panel of judges

Following were the judges, who were appointed by the college to critically analyse the entries

Name of Judges	Department of Judges
Dr. Renu Rathi	Psychology
Dr. Suruchi Sharma	History



Inaugural Function

The function started with the inauguration of the competition by chief guest Dr. Vikramjit Singh, Principal, Dayanand College, Hisar. Dr. Anoop Parmar DSW and Dean of college also accompanied the chief guest during the function.




**The function started with the welcome speech of President of Association
Ms. Zinat**



Analysis of Entries by the Judges


Judges critically analyzed all the photographs and announced 1st, 2nd and 3rd prizes and two consolation prizes.




Announcement and Distribution of Prizes

Following Result were announced by the Judges


- ❖ Certificates and cash prizes were distributed by the Chief Guest to the Winners.




1st Prize




2nd Prize



3rd Prize



1st Consolation Prize



2nd Consolation Prize

Announcement by Chief Guest

The Chief Guest was impressed with the exhibition so much that he announced that Association should organize this exhibition at state level next time. This was a great achievement for the Association.

Press Release (in Documentary Film)

Hisar, Hissar : हिसार: दयानंद महाविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा फोटोग्राफी प्रतियोगिता का किया गया आ... public.app

दयानंद महाविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा फोटोग्राफी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन https://publicapp.co.in/video/sp_81qrj61p7rfhi?share=true

अपने क्षेत्र हिसार की खबरों के लिए डाउनलोड करें पब्लिक (Public) ऐप <https://goo.gl/K25sy1> 8:39 am ✓

Press Release (Newspaper cutting)

फोटोग्राफी प्रतियोगिता में जीनत विनर

भास्कर न्यूज/हिसार

दयानन्द महाविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग द्वारा फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बीएससी मेडिकल और बायोटेक के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता मुख्यतः हिंसार के आस-पास के पक्षियों के क्रियाकलापों पर आधारित रही। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है।

प्रतियोगिता का संचालन जन्तु विज्ञान एसोसिएशन की प्रधान जीनत यादव ने किया।

प्रतियोगिता में विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने मुख्य भूमिका निभाते हुए प्राणी विभाग के लोगों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। प्रतियोगिता में निर्णायक मण्डल की भूमिका डॉ. रेनु राठी व डॉ. सुरूचि शर्मा ने निभाई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर जीनत यादव, द्वितीय स्थान पर आकाश, तृतीय मंजीत रहे। मोनिका व राहुल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ. अनूप परमार, मीनाक्षी जिन्दल, सचिन, अंजू, डॉ. उर्मिला, हिमानी व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पक्षियों के क्रियाकलापों पर आधारित फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित



पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 7 मार्च : दयानन्द महाविद्यालय, हिसार के जन्तु विज्ञान विभाग द्वारा एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में टैम्बलू डमकपबंस और टफबडमबो के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता मुख्यतः हिंसार व हिंसार के आस-पास के पक्षियों के क्रियाकलापों पर आधारित रही। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है। प्रतियोगिता का संचालन जन्तु विज्ञान एसोसिएशन

की प्रधान जीनत यादव ने किया। इस प्रतियोगिता में विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने मुख्य भूमिका निभाते हुए प्राणी विभाग के लोगों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने प्रतियोगिता की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों को अपने वातावरण का ज्ञान देने के साथ-साथ उसके प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। प्रतियोगिता में निर्णायक मण्डल की भूमिका डॉ. रेनु राठी व डॉ. सुरूचि शर्मा ने निभाई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर जीनत यादव, द्वितीय स्थान पर आकाश, तृतीय मंजीत रहे।

मोनिका व राहुल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए प्राणी विज्ञान विभाग को बधाई दी व कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा महाविद्यालय इस शानदार प्रतियोगिता को उत्तमस्तर पर आयोजित करने की कोशिश करेगा। इस अवसर पर डॉ. अनूप परमार, मीनाक्षी जिन्दल, सचिन, अंजू, डॉ. उर्मिला, हिमानी व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

ACTIVITY 3

Department of Zoology

Visit to Dairy and Poultry farm LUVAS, Hisar

Course code	Zoo 503P (Proof attached)
Name of Course	Laboratory Practicals of Applied Zoology I and II
Date of Permission	23 rd Feb 2021 (Proof attached)
Date of Visit	8 th -9 th March 2021
Visiting site	Dairy and Poultry farm LUVAS, Hisar
Accompanied teaching staff	Dr. Meenakshi Jindal Mr. Sachin
Accompanied Lab. staff	Mr. Subhash
Class	B.Sc. III rd yr Medical (A1 & A2) B.Sc. III rd yr Biotechnology
Total Students (in both classes)	147
No. of Students visited	112

Permission Letter



DAYANAND POSTGRADUATE COLLEGE, HISAR - 125 001
दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार - 125 001

Off. : 01662-270989, 233136, Res. : 01662-239399

e-mail : principal.dnchs@gmail.com

Ref. No. DNH/23/247

Receipt No. 494 24/2/2021 Dated 23/2/2021

Dr. Dean (C) [Signature]
APA
[Signature]

The Dean,
College of Veterinary Science,
Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences (LUVAS),
Hisar.

Sub. : Visit to Poultry and Dairy Farms at LUVAS, Hisar.

Dear Sir,

We want to inform you that about 175 students (in two batches) of B.Sc. Final year (Medical & Biotech.) of this college want to visit Poultry and Dairy Farm in the first week of March, 2021. This visit will help the students for practical knowledge of Poultry and Dairy Farm. Three staff members namely Dr. Meenakshi Jindal, Mr. Sachin and Sh. Subhash (Lab. Attendant) shall accompany the students during this visit. Please allow them to visit the farms and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

Principal

Allowed-

[Signature]
24/2/2021

R.I.O

Dear Sir / R 4/1
26/2/2021

Semester – V

Discipline Specific Elective Course -III (Zoology)
ZOO 503 P Laboratory Practicals of Applied Zoology I & II

Credits (0-2)

Maximum Marks:50

Internal Marks: 0



External Marks:50

1. Study of *Plasmodium vivax*, *Entamoeba histolytica*, *Trypanosoma gambiense*, *Ancylostoma duodenale* and *Wuchereria bancrofti* and their life stages through permanent slides/photomicrographs or specimens.
2. Study of arthropod vectors associated with human diseases: *Pediculus*, *Culex*, *Anopheles*, *Aedes* and *Xenopsylla*.
3. Study of insect damage to different plant parts/stored grains through damaged products/photographs.
4. Identifying feature and economic importance of *Helicoverpa (Heliothis) armigera*, *Papilio demoleus*, *Pyrilla perpusilla*, *Callosobruchus chinensis*, *Sitophilus oryzae* and *Tribolium castaneum*
5. Visit to poultry farm or animal breeding centre. Submission of visit report
6. Maintenance of freshwater aquarium

Ap. J. Kumar
27/6/19

Nomenclature of Course Zoo 503P

Visit to Dairy Farm at LUVAS, Hisar (08/03/2021)



Visit to Poultry Farm at LUVAS, Hisar (09/03/2021)

